

## 35 Powerful Candlestick Patterns in Hindi

अब मैं आपको 35 तरह के कैंडल स्टिक पैटर्न बताने वाला हूँ जिसमें बुलिश ट्रेड एवं बारिश ट्रेड दोनों ही सम्मिलित हैं जिससे हम यह पता लगा सकते हैं की आखिर मार्किट कब निचे से ऊपर की तरफ रुख करेगा या फिर ऊपर से निचे की तरफ कब रुख कर सकता है ।

अधिकतर लोग वे शेयर कहीदना ज्यादा पसंद करते है जो ऊपर की तरफ तेजी में हो वे कभी भी निचे जाने वाले शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं और एक बात आपको और बता दू की इन सभी पैटर्न का पीडीएफ फाइल निचे से प्राप्त कर सकते हैं ।

ऊपर की तरफ रुख करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न्स – ( *bullish candlestick pattern in hindi* )

ग्रीन हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है मुख्य रूप से डाउनट्रेड के अंत में बनता है और तेजी से मार्किट को रेवर्सल होने का संकेत देता है। इस कैंडल का शरीर ढांचा छोटा एवं निचे की तरफ एक लम्बी पूछ जैसी रेखा होती है जो जितनी बड़ी होगी मार्किट उतनी तेजी स ऊपर जाता है ।




इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में ऊपर की तरफ कोई रेखा नहीं है। इस कैंडल के पीछे बनाने का मुख्य कारण भी जान लेते हैं जब बाजार खुला तो विक्रेता ने अपने सौदे बेचे सुरु कर दिए जिससे प्राइस गिरता गया लेकिन इसके तुरंत बाद खरीददार भी आ गए और विक्रेता पर हावी हुए जिससे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगा ।

अंत में कैंडल क्लॉस होते समय खरीददार की जित हुई जिसके कारण आपको अमूमन इस तरह के hammer candle stick पैटर्न देखने को मिलते हैं जिसे hammer या bullish reversal पैटर्न भी कहा जाता है । इसका अकार कुछ हथौड़े जैसे दीखता है ।

## Piercing candlestick pattern-Top all candlestick patterns pdf in hindi download

bearish पैटर्न दो तरह के कैंडलस्टिक के आपस में मिलने से और डाउनट्रेंड के बाद बनता है जो एक तेजी से मार्किट को रिवर्स करने में सक्षम है। इस पैटर्न में पहले रेड कैंडल है जो मार्किट की मंडी को दर्शाता है लेकिन उसके बाद बनी ग्रीन कैंडल में मार्किट को बदलने की ताकत रहती है।



यदि आप इस पैटर्न को चार्ट में खोजना चाहते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान दे की इस रह के कैंडल में जो रेड कैंडल है उसकी आधी बाँड़ी के ऊपर बगल में बनी ग्रीन कैंडल का क्लोज होना जरूरी है जिससे बाजार का रङ्गान बदलने का संकेत पुख्ता हो जाता है।

इस तिरह के पैटर्न में यदि कोई ट्रेडर तभी सबसे ज्यादा ट्रेड लेते हैं जब उस रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल काटते हुए ऊपर क्लोजिंग दे दे और आसानी से दूसरी कैंडल के निचे स्टॉप लोस्स लगा सकते हैं।

### Bullish Engulfing candle stick pattern

यह कैंडल पैटर्न सबसे ज्यादा प्रचलित है जिसमे दो तरह के कैंडल समाहित होते हैं और यह पैटर्न एक लम्बे दोटरेड का बाद बन सकते हैं जिसके उपरान्त मार्किट रिवर्स करने का चांस ज्यादा रहता है।




Top all candlestick patterns pdf in hindi download

इस पैटर्न में बनी पहली candle एक मंदी की कैंडल है जो बाजार के डाउनट्रेंड की निरंतरता को इंगित करती है लेकिन बगल में बनी दूसरी कैंडल एक लंबी तेजी वाली कैंडल है जो पहली वाली को पूरी तरह से घेर लेती है जो यह दर्शाती है कि अब बैल बाजार में वापस आ गए हैं।

इस पैटर्न में यदि आप ध्यान दे तो पाएंगे की दोनों में कोई टेल नहीं बना है जो यह पुख्ता करता है की ट्रेंड अब बदलने के लिए तैयार है तथा इसे ही बुलिश एंगलफिंग कैंडल पैटर्न कहते हैं

## The Morning Star

इस तरह का पैटर्न तीन कैंडल का समावेश होता है जिसमें एक तो रेड कैंडल होते और दो ग्रीन कैंडल हो सकते हैं लेकिन कभी – कभी सिर्फ एक ही रेड एवं ग्रीन कैंडल बन सकते हैं और तीसरा बिलकुल एक doji candle जैसा न सकते हैं ।



पहली वाली रेड कैंडल डाउनट्रेंड की निरंतरता को दिखाता है और दूसरी कैंडल का दोजी होना बाजार में मौजूद bull और bear की लड़ाई को बराबर दिखाता है और अंत में तीसरी तेजी वाली ग्रीन कैंडल से खरीददार बाजार में वापस आ गए हैं और ट्रेंड ऊपर की तरफ जा सकता है । यहां ध्यान दे की दूसरी कैंडल का शरीर बाकी दोनों कैंडल से टच नहीं होना चाहिए ।

## Three White Soldiers pattern

थ्री व्हाइट सोल्जर्स तीन कैंडल का समाहित पैटर्न है जो अमूमन डाउनट्रेंड के बाद बनता है जो एक तेजी से ट्रेंड बदलने का संकेत देता है। ये कैंडलस्टिक चार्ट तीन लंबे बुलिश बॉडी से बने होते हैं जिनमें कोई पूछ नहीं होती है और इस पैटर्न में सभी अपने पिछली कैंडल के असली बॉडी के भीतर खुले हुए होता है ।




## White Marubozu candle pattern

व्हाइट मारुबोजू सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो यह भी डाउनट्रेंड के बाद ही बनता है जिसमें तेजी से ट्रेंड बदलने के संकेत देता है। इसका अकार एक लंबा बुलिश ग्रीन बॉडी है, जिसमें कोई भी ऊपरी या निचली हिस्से में पूछ नहीं होती हैं।



जो यह दर्शाता है कि ट्रेडर्स जमकर खरीददारी कर रहे जिसके दबाव में candle ग्रीन और लम्बा होते चला जाता है जिससे बाजार में तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है। इस कैंडल के बनाने के बाद मुख्य रूप से विक्रेताओं को सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी शॉर्टिंग पोजीशन को बंद कर देना चाहिए।

थ्री इनसाइड अप मल्टीपल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक डाउनट्रेंड के बाद बनाने के साथ ही बुलिश रिवर्सल का संकेत देता है। इसमें मुख्य तीन कैंडलस्टिक्स होते हैं, पहली एक लंबी मंदी की कैंडल लाल रंग की होती है।



दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश हरी कैंडल होती है जो पहली कैंडल की सीमा के नादेर ही बनानी चाहिए फिर उसके बाद तीसरी कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होना जरूरी है जो यह बताये की अब ऊपर की तरफ ट्रेंड जाने वाला है।

पहली और दूसरी कैंडलस्टिक का आपस में संबंध बुलिश **harami candlestick pattern** की तरह चाहिए। इस पैटर्न के पूरा होने के बाद ट्रेडर्स लॉन्ग की तरफ जा सकते हैं ।

## Bullish Harami candlestick pattern


बुलिश हरामी दो कैंडलस्टिक का समयजन चार्ट पैटर्न है जो एक डाउनट्रेंड के बाद ही बनता है और जो ट्रेड चेंजिंग का संकेत देता है। इसमें दो कैंडलस्टिक होते हैं जिसमें पहला कैंडलस्टिक एक लंबी रेड रंग वाली कैंडल होती है और दूसरी एक छोटी बुलिश ही कैंडल होती है जो पहली कैंडलस्टिक के अंदर ही बनाना चाहिए ( **candlestick chart pattern analysis in hindi** ) ।



[Top all candlestick patterns pdf in hindi download](#)

## bearish tweezer candlestick pattern

कभी – कभी टेक्निकल चार्ट पर एक मंदी की चिमटी से नोचने जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण होता है जो चल रहे डाउनट्रेंड के संकेत को दर्शाता है लेकिन अगले दिन, बुलिश कैंडल के निर्माण के साथ पिछले के लो सपोर्ट लेवल बना देता है ।



लगभग एक समान प्राइस के लौ पर बंद हुए दोनों कैंडल मार्किट के ऊपर जाने के संकेत को दिखाते हैं। इस अटेरन के वजह से खरीददार एक्टिव हो जाते हैं जिस कारण कीमत को ऊपर की ओर जाने की संभावना बढ़ जाती है और अगले दिन बुलिश कैंडल के निर्माण के साथ ही बुलिश रिवर्सल की पुष्टि हो जाती है।

## Inverted Hammer


कभी – कभी डाउनट्रेंड के दौरान एक उल्टा हथौड़ा जैसा कैंडल बनता है जो एक तेजी से ट्रेंड को बदलने की ताकत रखता है। इस कैंडल में वास्तविक शरीर अंत में स्थित होता है और एक लंबी ऊपरी छाया होती है।



यह हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न का ठीक उलट बनता है। यह कैंडल पैटर्न का निर्माण तब होता है जब कोई share की कीमत खुलने और बंद दोनों के सबसे नजदीक होती हैं और ऊपर की तरफ पूछ वास्तविक शरीर के दोगुने से अधिक होना जरूरी है।

## Three Outside up candlestick pattern


यह कैंडलस्टिक पैटर्न आमतौर पर एक डाउनट्रेंड के बाद ही बनता है जो बुलिश ट्रेंड का संकेत देता है। इसमें मुख्य 3 कैंडलस्टिक्स होते हैं, पहला एक छोटा बियरिश लाल कैंडल होता है, दूसरा कैंडल एक बड़ा बुलिश हरा कैंडल होता है जो पहली कैंडल को पूरी तरह से कवर करता लेता है।



तीसरी कैंडल एक लंबी बुलिश कैंडल होनी चाहिए जो पिछले दोनों के हाई काटते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग दे इस तरह यह पैटर्न रिवर्सल ट्रेंड की पुष्टि करती है। पहले और दूसरे कैंडलस्टिक का पैटर्न का संबंध बुलिश एंगलिंग पैटर्न के जैसा होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पूरा होने के बाद खरीददार बाई पोजीशन ले सकते हैं।

## On Neck candlestick pattern

इस तरह के कैंडल पैटर्न में पहली कैंडल तो बेयरिश लाल कैंडल कैंडल होती लेकिन जब अगला कैंडल का निर्माण होता है तब थोड़े से अंतर या बराबर प्राइस में ओपन होता है और धीरे – धीरे अंत में फिर से उसी ऊपर प्राइस में ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है ।



[Top all candlestick patterns pdf in hindi download](#)

इस कैंडल पैटर्न को नेकलाइन कहा जाता है क्योंकि दोनों का प्राइस का समापन मूल्य एक समान या लगभग दो कैंडल में समान होते हैं, जो एक क्षैतिज नेकलाइन का निर्माण करते हैं ।

अभी तक हमने बुलिश ट्रेड में बदलने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न को जान लिया है परन्तु हमें यह भी जानना जरूरी है की आखिर बेयरिश ट्रेड की सुरुवात कैसे होती है ताकि हम पाने सौदे को बेचकर बाहर आ सके ।

## Hanging Man pattern

हैंगिंग मैन एक सिंगल कैंडल पैटर्न है जो अपट्रेड के अंत में बनता है और बेयरिश मार्किट के सुरु होने का संकेत देता है। इस कैंडल का वास्तविक शरीर बहुत छोटा और निचे लम्बी पूछ के साथ शीर्ष पर स्थित है जिसकी लम्बाई शरीर से दोगुने से अधिक होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में ऊपर कोई पूछ नहीं होती है ।




इस candle के बनाने का मुख्य वजह यह है कि कीमतें खुलीं और विक्रेता ने कीमतों को नीचे की तरफ धकेल दिया फिर अचानक से खरीदार भी बाजार में आ गए और कीमतों को ऊपर

धकेल दिया लेकिन वे विक्रेता पर हावी ना हो सके जिसके फलस्वरूप कीमतें शुरुआती कीमत से नीचे बंद हो गईं।

## Dark Cloud cover

डार्क क्लाउड कवर 2 कैंडल से मिलकर बनाने वाला पैटर्न है जो अपट्रेंड के समाप्त होने को दर्शाता है। इसमें एक ग्रीन और एक रेड कैंडल बनती है जिसमें पहली कैंडल बुलिश कैंडल है जो अपट्रेंड को बरकरार रखती है।



परन्तु दूसरी रेड कैंडल एक मंदी की मोमबत्ती है जो पिछले हाई को तोड़ती जरूर है लेकिन बंद होने के दौरान उसका वास्तविक शरीर के 50% से अधिक निचे की तरफ जाता है जिससे यह पता चलता है की अब बाजार में सेलर आ चुके ऐसे में हमे अपने सादे क्लोज करने चाहिए।

## Bearish Engulfing candlestick pattern

2 कैंडल से मिलकर बना पैटर्न है जो अपट्रेंड के बाद बनता है और मंदी सुरु होने का संकेत देता है। इसमें दूसरी रेड कैंडल पहली कैंडलस्टिक को अछि रह से घेरती है जिसके पूछ नहीं होते है।



[Top all candlestick patterns pdf in hindi download](#)

दूसरा कैंडलस्टिक यह ही पुख्ता करती है की अब बाजार में विक्रेता की एंट्री हो चुकी हैं दर्शाती है कि भालू बाजार में वापस आ गए हैं। यदि अगले दिन एक मंदी की मोमबत्ती बनती है तो व्यापारी एक छोटी स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं और दूसरी मोमबत्ती के उच्च स्तर पर स्टॉप-लॉस लगा सकते हैं।

## The Evening Star


यह मुख्य रूप से 3 कैंडल है जो अपट्रेंड के बाद बनता है जो मंदी के सुरु होने का संकेत देता है। जिसमें पहला पहला कैंडल है, दूसरा दोजी कैंडल है और तीसरा एक बियरिश कैंडल है जो पिछले दोनों कैंडल के लौ को काटकर क्लोजिंग दिया है ( ***candlestick patterns pdf in hindi*** )।



पहली कैंडल बाजार के अपट्रेंड को बनाया रखने में सक्षम है , दूसरी कैंडल का दोजी बनाना किसी के पक्ष में निरनय का नहीं हो बताता है, और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग से पता चलता है कि विक्रेता बाजार में वापस आ गए हैं और ट्रेंड बदल सकते हैं दूसरी कैंडल पहली और तीसरी कैंडल के वास्तविक शरीर से पूरी तरह बाहर होनी चाहिए।

### **Three Black Crows**

यह मुख्य रूप से 3 कैंडल का पैटर्न है जो एक अपट्रेंड के समाप्ति के संकेत को दर्शाता है। ये कैंडलस्टिक्स तीन बड़े बेयरिश वाले पिंडों से बने होते हैं जिनकी कोई भी पूछ नहीं होती है और पैटर्न में पिछली कैंडल के वास्तविक शरीर के भीतर खुलते हैं।



### **Black Marabou pattern**

ब्लैक मारुबोजू एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक अपट्रेंड को दोनट्रेंड में बदलने में सक्षम है। इस कैंडलस्टिक चार्ट में एक लंबी बेयरिश कैंडल बनती है जिसका शरीर में किसी तरह का ऊपर या निचे कोई पूछ नहीं होती है जो यह दर्शाता है कि बिक्रेता अब बिकवाली के दबाव को बढ़ा रहे हैं जिससे बाजार मंदी की ओर मुड़ सकते हैं।



### Three inside down

जैसा की नाम से ही पता चलता है की यह 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बना पैटर्न है जो एक अपट्रेंड के बाद बनता है और एक बुलिश ट्रेंड को रिवर्स करने का संकेत है। इसमें शामिल जो तीन कैंडलस्टिक्स हैं उनमें पहली लंबी बुलिश कैंडल होती है, दूसरी कैंडल एक छोटी लाल होती है जो कि पहली कैंडलस्टिक की रेंज में होनी चाहिए।




[Top all candlestick patterns pdf in hindi download](#)

तीसरा कैंडलस्टिक का पैटर्न चार्ट में एक लंबी रेड कैंडल होनी चाहिए जो मंदी के उलटफेर की पुष्टि करती हो। पहली और दूसरी कैंडलस्टिक का संबंध बेयरिश के हारामी कैंडलस्टिक पैटर्न का होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पूरा होने के बाद ट्रेडर्स शॉर्ट पोजीशन के लिए जा सकते हैं।

### Bearish Harami pattern

दो तरह के कैंडल से मलकर बना यह एक ऐसा पैटर्न है जो अपट्रेंड के बाद बनता है जो मंदी के सुरु होने के संकेत देता है। इसमें दो तरह के कैंडलस्टिक्स होते हैं, पहली कैंड एक लंबी बुलिश कैंडल होती है और दूसरी एक छोटी बियरिश कैंडल होती है जो पहले कैंडलस्टिक चार्ट की रेंज में होनी चाहिए।



पहली बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल यह बताता है की अभी बाजार में खरीददार मौजूद है परन्तु दूसरी कैंडल दर्शाती है कि विक्रेता बाजार में वापस आ रहे हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के पूरा होने के बाद ट्रेडर्स शॉर्ट करने के लिए मन बना सकते है ।

### Shooting Star pattern

शूटिंग स्टार अपट्रेंड के अंत में बनता है जो कुछ कुछ उलटे हथौड़े की तरह लाल होता है और मार्किट मंदी आने का पुख्ता सबूत देता है । इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में इसका वास्तविक शरीर अंत में स्थित होता है और ऊपर में लम्बी पूछ होती है।




Top all candlestick patterns pdf in hindi download

यह ठीक हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न का विपरीत बनता है । यह पैटर्न का निर्माण तब होता है जब प्राइस में खुलने और बंद होने के अंतर ठीक एक-दूसरे के करीब होती हैं और ऊपरी छाया वास्तविक शरीर के दोगुने से अधिक होनी चाहिए।

### Tweezer Top Pattern

ट्वीजर टॉप पैटर्न मंदी का सुरुवाती कैंडलस्टिक पैटर्न है जो एक अपट्रेंड के अंत में बनता है। इसमें दो कैंडल होते हैं, पहला बुलिश और दूसरा बियरिश कैंडलस्टिक। दोनों ट्वीजर कैंडलस्टिक लगभग एक जैसा या फिर एक ही हाई प्राइस बनाते हैं।

जब ट्वीजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो पूर्व की प्रवृत्ति ट्रेंड उप साइड में होता है। अगले दिन, जब दूसरे दिन की रेड बियरिश कैंडल की ऊँचाई एक प्रतिरोध स्तर को इंगित करती है। खरीददार कीमतों को ऊपर की ओर बढ़ाते दिख रहे हैं, लेकिन अब वे अधिक कीमतों पर खरीदारी करने को तैयार बिलकुल नहीं हैं।




लगभग समान ऊँचाई वाली सबसे ऊपरी दोनों कैंडल का रेजिस्टेंस की ताकत का संकेत देती हैं और यह भी संकेत देती हैं कि डाउनट्रेंड बनाने के लिए अब अपट्रेंड की दिशा बदल सकती है। इस मंदी के उत्क्रमण की पुष्टि अगले दिन यानी तीसरे दिन होती है जब मंदी की कैंडल बनती है।

## Continuation Candlestick Patterns

दोस्तों केवल बुलिश और बेयरिश पैटर्न हमें रोज सभी शेयर में नहीं मिलती हैं जिसके वजह से हम शेयर मार्किट में बहुत ही कम ट्रेड ले पाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम ही सही परन्तु वे मार्किट के बीच में प्रवेश करते हैं चाहे बाजार ऊपर हो या निचे बस थोड़ा मुनाफा लेकर अपनड़े ट्रेड क्लोज कर देते हैं तो चलिए कुछ इस तरह के भी कैंडल पैटर्न को जान लेते हैं ।

दोजी पैटर्न एक तरह से अनिर्णय वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका निर्माण तभी होता है जब ओपन प्राइस और क्लोज मूल्य लगभग बराबर होते हैं या यु कहे की जब खरीददार और विक्रेता दोनों ही कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लड़ रहे होते हैं ।

तभी doji कैंडल का निर्माण होता है लेकिन अंत में कोई भी कीमतों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने में सफल नहीं होता है। इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न का अकार बहुत छोटे वास्तविक शरीर और लंबी पूछ के साथ एक क्रॉस की तरह दिखता है।



[Top all candlestick patterns pdf in hindi download](#)


## Spinning Top

इस तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न दोजी के समान है जो बाजार में अनिर्णय का संकेत देता है। spinning top और दोजी के बीच एकमात्र अंतर उनके गठन में यह है की spinning top का वास्तविक शरीर दोजी की तुलना में बड़ा होता है।




### Falling Three Method

” फॉलिंग थ्री मथोड ” एक तरह से बेयरिश एवं पांच कैंडल से मिलकर बना पैटर्न है जो एक रुकावट का संकेत देता है, लेकिन चल रहे डाउनट्रेंड को बदलने में सक्षम नहीं है। कैंडलस्टिक पैटर्न प्रवृत्ति की दिशा में दो लंबे कैंडलस्टिक चार्ट से बना है, यानी शुरुआत और अंत में दो डाउनट्रेंड कैंडल और बीच में तीन छोटे काउंटर-ट्रेंड कैंडलस्टिक्स बनते हुए नजर आते हैं।



### Rising Three Methods -all candlestick patterns pdf in hindi download-शेयर मार्किट कैंडल चार्ट इन हिंदी

“Rising Three Method” एक उप ट्रेंड , पांच कैंडल वाला निरंतरता पैटर्न है जो एक सपोर्ट का संकेत देती है, लेकिन चल रहे अपट्रेंड को बदल नहीं सकती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न ट्रेंड की दिशा में दो लंबी कैंडलस्टिक्स से बना है जिसके शुरुआत और अंत के बीच में तीन छोटे काउंटर-ट्रेंड कैंडलस्टिक्स नजर आते हैं।




## Top all candlestick patterns pdf in hindi download

यह कैंडलस्टिक पैटर्न महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इन्वेस्टर को दिखाता है कि विक्रेता के पास अभी भी प्रवृत्ति को उलटने के लिए पर्याप्त शक्ति मौजूद नहीं है। इसलिए आप पहले कैंडल के हाई टूटने के बाद ट्रेड में एंटर कर सकते हैं।


### Up – Side Tasuki Gap

यह बुलिश कंटीन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अपट्रेंड में बनता है और इसमें कैंडलस्टिक सम्मिलित होते हैं, पहली कैंडलस्टिक लंबी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। दूसरी कैंडलस्टिक भी गैप अप के बाद बनने वाला बुलिश कैंडलस्टिक होता है लेकिन तीसरी कैंडलस्टिक एक मंदी की कैंडल है जो पहले दो बुलिश कैंडल के बीच बने गैप में बंद हो जाती है। Top all candlestick patterns pdf in hindi download



### Down – Side Tasuki


यह बेयरिश मार्किट की निरंतरता वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है जो अमूमन डाउनट्रेंड में बनता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में तीन कैंडल होती हैं जिसमें पहली कैंडलस्टिक एक लंबी बाँडी की लाल कैंडलस्टिक होती है। दूसरी कैंडलस्टिक भी एक लाल कैंडलस्टिक होती है जो एक गैप डाउन के बाद बनती है। तीसरी कैंडलस्टिक एक बुलिश कैंडल है जो इन पहले दो रेड कैंडल के बीच बने गैप में बंद हो जाती है।



Top all candlestick patterns pdf in hindi download

## Mat – Hold pattern

मैट होल्ड पैटर्न एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है जो एक पूर्व प्रवृत्ति को जारी रखने का संकेत देता है। या तो मंदी या बुलिश मैट होल्ड पैटर्न हो सकते हैं। एक बुलिश पैटर्न एक बड़ी बुलिश कैंडल के साथ शुरू होता है, उसके बाद गैप अधिक होता है और तीन छोटी कैंडल जो कम चलती हैं।



weekly bullish pattern-Top all candlestick patterns pdf in hindi download

अब मैं वीकली चार्ट पर बन रहे एक ऐसे तप इ बारे में बताएं चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया था जिसमें दो कैंडल होते हैं जो कुछ haraami pattern की तरह निर्माण करते हैं बस उसे ही हमें हर हफ्ते में वीकली चार्ट पर ढूँढ़ना होता है ।

जिसमें पहला ग्रीन कैंडल होता है और उसके बाद बनाने वाला कैंडल पहले वाले के अंदर की बंद होना चाहिए चाहे वो कोई भी कैंडल हो । फिर हमें इस तरह के कैंडल चार्ट को ढूँढ़कर एक लिस्ट बनाना है ।



Top all candlestick patterns pdf in hindi download

ऊपर इमेज में यदि ध्यान दे तो इसी तरह का कैंडल दिखाया है जो अभी हाल का हिअ है जिसमें मैंने इन्वेस्ट करके 5% मुनाफा कमाया है लेकिन यह करीब 10% से भी ऊपर गया है । इस चार्ट में जहां एरो दिख रहा वह बड़ा ग्रीन कैंडल है ।

फिर उसके बाद बनाने वाला एक रेड कैंडल है जो क्लोजिंग उसके अंदर दिया है बस जब ग्रीन कैंडल का हाई टूटे तो कोई भी इसे खरीद सकता है और ग्रीन कैंडल के निचे अपना stop loss लगाकर मुनाफा कमा सकता है ।

यहां बोलना चाहूंगा की मैं किसी को शेयर खरीदने के लिए बाध्य नहीं करता हु क्योंकि यह सब स्टडी और एनालिसिस पर्पज के लिए है आप शेयर खरीदने से पहले अपने अडवाइजर से जरूर सलाह ले ।

## शेयर मार्किट में ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करे-how to draw trend line in share market in hindi-(Top all candlestick patterns pdf in hindi download)

अगर आप बिना किसी इंज़ट के और किसी भी समयावधि में कोई भी स्टॉक निकालना चाहते हैं तो मेरे बताए गए टिप्स का इस्तेमाल जरूर करें।

सबसे पहले, चार्ट में अपनी पसंद के अनुसार समय अवधि चुनें और इसे कैंडल चार्ट के बजाय लाइन चार्ट में बदलें।

अब इसके बाद अगर आप चार्ट को देखेंगे तो पाएंगे कि सभी फाल्स ब्रेकआउट गायब हैं और इसके कारण अपट्रेंड के लिए हाईयर लो को आपस में जोड़ने वाली ट्रेंड लाइन बनाएं।



Top all candlestick patterns pdf in hindi download

ट्रेंड लाइन खींचने के बाद, लाइन चार्ट को वापस कैंडलस्टिक में बदलें, इस तरह आपकी अपट्रेंड ट्रेंड लाइन सही तरीके से लागू हो जाएगी।

इसी तरह, डाउन ट्रेंड के लिए चार्ट को एक लाइन चार्ट में बदलें, हाई फ्लेम को चिह्नित करें, उन सभी को एक साथ जोड़कर एक कैंडलस्टिक चार्ट में बदलें, फिर आपके पास एक ग्रेट डाउन ट्रेंड लाइन लागू होगी।



[Top all candlestick patterns pdf in hindi download](#)

इस प्रक्रिया की मदद से आप समर्थन और प्रतिरोध भी खींच सकते हैं, जिसमें केवल निम्न बिंदु या बिंदु को स्पर्श करने वाली एक क्षैतिज रेखा खींचें।




## Japanese candlestick charting techniques in hindi

कैंडल स्टिक के यदि बेस को समझा जाए तो मुख्य रूप से दो तरह के ही कैंडल बनते हैं जिसमें पहला bullish candle होता है जिसे हरे रंग से दर्शाया जाता है जिसमें प्राइस के 4 तरह से दिखाया जाता है जिसके बारे में हम ऊपर बात कर चुके हैं

दूसरा bearish candle होता है जिसे लाल रंग से दर्शाया जाता है इसके भी चार प्राइस ओपन , हाई , लो तथा क्लोज प्राइस होते हैं लेकिन हरे कैंडल ( bullish candle ) का मतलब यह हुआ की उस दिन वह कैंडल अपने पिछले क्लोज प्राइस के ऊपर बंद हुआ और लाल कैंडल ( bearish candle ) का मतलब यह हुआ की उस दिन यह अपने पिछले कैंडल के क्लोज प्राइस के निचे बंद हुआ ।

तो चलिए सभी कैंडल पैटर्न को जानने से पहले इन दो तरह के कैंडल के बारे में कुछ जानकारी हाशिल कर लेते हैं ताकि आपको आगे समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी और जल्दी सिखने में मदद भी मिलेगी



Top all candlestick patterns pdf in hindi download

ऊपर इमेज में दिए दो तरह के कैंडल को देखकर कंप्यूज होना लाजमी है परन्तु यह उतना कठिन नहीं इसे समझना बेहद आसान हैं । सबसे पहले बाए तरफ के लाल कैंडल के बारे में बात करते हैं जिसमे यदि आप गौर करे तो यह 100 रूपए में ओपन हो रहा है और ऊपर की तरह 105 रूपए तक गया है

फिर इसके बाद निचे 90 रूपए तक गया और अंत में 95 रूपए पर बंद हुआ । दाए वाले ग्रीन कैंडल में कैंडल 95 रूपए में खुलता है और निचे 90 रूपए तक गया फिर वह सबसे ऊपर 105 रूपए तक गया अंत में यह कैंडल 100 रूपए में जाकर बंद हो गया । इस तरह से आप किसी भी चार्ट में कैंडल के प्राइस आसानी से प्राप्त कर सकते हैं